



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/50373

दिनांक: 23 September, 2019

Shri Rakesh,

C- 187 , NTPC TOWNSHIP , DADRI, VIDYUT NAGAR, DISTT- G.B.NAGAR, Pin:201008, Uttar Pradesh.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28 August, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 मे संलग्न है।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,

कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 23/9/19


वरिष्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.नो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub.: Reply of RTI Request received from Shri Rakesh

Information Sought: (i)	Is there any reservation in promotion of Executives
Reply (i)	There is provision for reservation for SC/ST only in the lowest rung of hierarchy (E2 level) of Executive's promotion i.e. for promotion from Supervisory cadre to Executive cadre.
Information Sought: (ii)	Is there any provision for SC/ST/OBC, minorities executives for extra numbers while considering next level promotion.
Reply (ii)	Provision for extra marks for promotion to the next higher level is there for only SC and ST category executives.
Information Sought: (iii)	from Executive Director level to CMD level, give details of different levels cast wise e.g. for a particular level, how many posts occupied by sc, gen, st, obc, minority if total executive director are 100 then how many are from sc, st, obc, gen and minority etc.
Reply (iii)	In POWERGRID, at Executive Director (ED) level – 32 ED are from GENERAL category and 1 ED from OBC category, Further, 2 no. of EDs are from minority. At Functional Director/CMD level - 3 nos Functional Directors and 1 no. CMD are from GENERAL category.
Information Sought: (iv)	Is there any special consideration for minorities in any benefit?
Reply (iv)	In POWERGRID, reservation has been implemented in line with GOI directives and no special consideration/benefit is applicable i.r.o. minorities.
Information Sought: (v)	For new executive recruitment, what are the classification of marks e.g. interview, written test and group discussion
Reply (v)	Information is enclosed at Annexure-I

-----x-----



(v)	For new executive recruitment, what are the classification of marks e.g. interview, written test and group discussion.		
Reply	For recruitment of Trainees in Executive level(i.e. Executive Trainees and Assistant Engineer Trainees) through Open Competition, the final score of a candidate for empanelment is calculated as mentioned below:		
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="303 616 798 694"></th><th data-bbox="798 616 1441 694">Weightage given in final score</th></tr></thead></table>		Weightage given in final score
		Weightage given in final score	
	Marks obtained in Written Test	85	
	Marks obtained in Group Discussion	03	
	Marks obtained in Interview	12	
Total Final Score	100		
During direct recruitment on experience basis, selection is done on the basis of marks obtained in interview. It is pertinent to mention that the above information is already mentioned (as applicable) in the detailed notification published on our website for each recruitment process.			

plis